



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 302 राँची, शुक्रवार,

5 अप्रैल, 2019 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

04 अप्रैल, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-108/2016-1617 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रवीण चौधरी, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच 'सीमित', गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उटारीरोड, पलामू के विरुद्ध अधिसूचित पद पर योगदान नहीं देकर विभागीय आदेश की अवहेलना करने, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-7344, दिनांक 24.08.2016 द्वारा स्वतः विरमित होने का आदेश निर्गत होने के उपरांत अधिसूचित पद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उटारीरोड का प्रभार ग्रहण नहीं कर अवकाश पर चले जाने तथा लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2557, दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-436, दिनांक 08.05.2017 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री चौधरी के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री चौधरी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री चौधरी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRAWEEEN CHOUDHARY JHK/JAS/274	श्री प्रवीण चौधरी, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच 'सीमित', गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उटारीरोड, पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972.

-----